

## बीईएमएल ने जीत लिया राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार

बीईएमएल लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम, ने "मेट्रो कार के इंटीरियर पैनल के लिए पेंटिंग प्रक्रिया मानकों के अनुकूलन" पर मामले के अध्ययन के साथ मेट्रो गुणवत्ता आश्वासन पर अपनी प्रस्तुति के लिए नई दिल्ली पर प्रतिष्ठित क्यूसीआई-डीएल शाह राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार-2016 जीत लिया है।

दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री की उपस्थिति में श्री जयंत सिन्हा, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बीईएमएल को उक्त पुरस्कार प्रदान किया।

प्रतिस्पर्धा में बढ़त पाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व होनेवाले गुणवत्ता पहल के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार पर जागरूकता को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए क्यूसीआई-डीएल शाह गुणवत्ता पुरस्कार स्थापित किए गए हैं।



*श्री जयंत सिन्हा, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने बीईएमएल को पुरस्कार प्रदान करते हैं।  
बीईएमएल की ओर से अपने टीम के साथ श्री सुशांत कुमार साहा, महाप्रबंधक (गुणवत्ता) पुरस्कार प्राप्त करते हैं।*

श्री सुशांत कुमार साहा, महाप्रबंधक (गुणवत्ता) के नेतृत्व में बीईएमएल मेट्रो टीम द्वारा प्रयोग के डिजाइन (डीओई), जिसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान स्तर पर इंटीरियर पैनल बीईएमएल में निर्मित किए गए हैं, का उपयोग कर सिक्स सिग्मा पद्धति के आधार पर मामले का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। यह नवाचार आयात लागत पर काफी हद तक बचत करने और "मेक इन इंडिया" पहल के एक अंश के रूप में आत्मनिर्भर होने में सहायता किया है गया है।

प्रतियोगिता नियम के एक अंश के रूप में भारत के गुणवत्ता दल के सलाहकार ने गुणवत्ता प्रणाली के निर्माण के लिए अपनाई जा रही सुविधाओं/प्रणालियों की जांच करने हेतु बीईएमएल के बेंगलूर कॉम्प्लेक्स में मेट्रो निर्माण की सुविधा का संदर्शन किया तथा "प्लेटिनम अवार्ड" की सिफारिश करते हुए अपना सकल संतोष व्यक्त किया।

यह उल्लेखनीय है कि बीईएमएल टीम ने इसके पहले वर्ष 2013 में क्यूसीआई-डीएल शाह प्रशस्ति पुरस्कार जीता है।

बेंगलूर  
21.09.2016

बीईएमएल लिमिटेड द्वारा रिलीस